



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 ज्येष्ठ 1938 (श0)

(सं0 पटना 497) पटना, शुक्रवार, 17 जून 2016

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

आदेश

14 जून 2016

सं0 7/नि. (विधि) बैंक-49/2003-5378—विभागीय आदेश संख्या-941, दिनांक 12.02.2004 द्वारा परिसमापनाधीन दरभंगा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, लहेरियासराय, दरभंगा के कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान से संबंधित दावों, निबंधक सहयोग समितियाँ के समक्ष बजट का उपस्थापन तथा मो० एक लाख रुपये से अधिक की राशि के व्यय की स्वीकृति आदि के साथ परिसमापन कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल दरभंगा को संयुक्त परिसमापक नियुक्त किया गया था ।

चूँकि संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल दरभंगा द्वारा अपने पत्रांक-477, दिनांक 11.08.2011 द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि उनके अधीन संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ दरभंगा के अतिरिक्त संयुक्त निबंधक सहयोग समितियाँ तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर एवं संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ सारण प्रमंडल छपरा का प्रभार भी सौंपा गया है । ऐसी स्थिति में परिसमापनाधीन दरभंगा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, लहेरियासराय, दरभंगा का संयुक्त परिसमापन का कार्य सम्पादन करने में कठिनाई हो रही है । उनके अनुरोध के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-4402, दिनांक 16.09.11 द्वारा श्री कन्हैया प्रसाद तत्कालीन उप निबंधक, सहयोग समितियाँ दरभंगा प्रमंडल दरभंगा को परिसमापन कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु परिसमापनाधीन दरभंगा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, लहेरियासराय, दरभंगा का संयुक्त परिसमापक नियुक्त किया गया था ।

वर्तमान में उप निबंधक, सहयोग समितियाँ दरभंगा प्रमंडल के पद पर श्री अशोक कुमार रजक की पदस्थापना है ।

1. अतः मैं अजय कुमार चौधरी निबंधक, सहयोग समितियाँ बिहार पटना बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम 1935 की धारा-44 (2) एवं बिहार सहकारी सोसायटी नियमावली 1959 के नियम-64(2) के अर्न्तगत उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल दरभंगा को तुरत के प्रभाव से परिसमापनाधीन दरभंगा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, लहेरियासराय दरभंगा का संयुक्त परिसमापक नियुक्त करता हूँ ।
 2. संयुक्त परिसमापक अपने कार्यों का सम्पादन उक्त आदेश ज्ञापक-941, दिनांक 12.02.2014 के आलोक में करेंगे ।
- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

आदेश से,
अजय कुमार चौधरी,
निबंधक, सहयोग समितियाँ ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 497-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>